

भुगतान प्रणाली संकेतक								
भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक - भुगतान एवं निपटान प्रणाली सांख्यिकी								
	मात्रा (लाख)				मूल्य (करोड़)			
	वित्तीय वर्ष 2024-25	सितंबर 2024	2025 अगस्त	2025 सितंबर	वित्तीय वर्ष 2024-25	सितंबर 2024	2025 अगस्त	2025 सितंबर
	1	2	3	4	1	2	3	4
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाज़ार अवसरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल संचालित सिस्टम	47.40	4.08	4.28	4.95	296218030	23840258	28151946	30270023
1.1 सरकार प्रतिभूति समाशोधन	17.87	1.57	1.50	1.75	185733719	14750412	16614170	18003263
1.1.1 आउटराइट	10.56	0.99	0.81	1.04	16056018	1468346	1240951	1499643
1.1.2 रेपो	4.72	0.37	0.47	0.48	77286611	6038102	7489700	7926471
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.58	0.21	0.22	0.23	92391091	7243965	7883520	8577149
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	28.06	2.40	2.69	3.11	100639565	8415273	10788097	11417001
1.3 रुपया डेरिवेटिव @	1.46	0.11	0.10	0.09	9844746	674573	749679	849759
बी. भुगतान प्रणाली								
i वित्तीय बाज़ार अवसरचना (एफएमआई)								
1 क्रेडिट ट्रांसफर - आरटीजीएस	3024.55	233.33	259.68	280.83	201387682	17786483	16371216	19836942
1.1 ग्राहक लेनदेन	3010.32	232.21	258.52	279.64	181153129	16027655	14993007	18220475
1.2 अंतरबैंक लेनदेन	14.23	1.12	1.16	1.19	20234553	1758828	1378209	1616467
ii खुदरा								
2 क्रेडिट अंतरण - खुदरा	2061014.91	166626.30	218816.17	213074.92	79781976	6384754	7102303	7543380
2.1 एडिपीएस (फंड ट्रांसफर) @	3.64	0.30	0.31	0.26	190	14	16	12
2.2 एपीबीएस \$	32964.43	2342.41	3817.08	2542.90	554034	35550	66150	41746
2.3 आईएमपीएस	56249.68	4299.36	4772.62	3943.79	7139110	565233	597549	596847
2.4 एनएसीएच क्रेडिट \$	16938.86	1657.93	1854.46	1850.43	1670223	122079	167856	149729
2.5 एनईएफटी	96198.05	7908.83	8288.60	8403.21	44361464	3597885	3785260	4265310
2.6 यूपीआई @	1858660.25	150417.47	200083.10	196334.33	26056955	2063995	2485473	2489737
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	17.24	1.31	0.69	0.94	185	14	7	10
3 डेबिट अंतरण और डायरेक्ट डेबिट	21659.95	1805.36	1929.02	1926.97	2208583	180707	214928	222919
3.1 भीम आधार पे @	230.08	18.81	25.38	18.90	6907	568	718	591
3.2 एनएसीएच डेबिट \$	19762.28	1651.69	1764.13	1786.47	2199327	179945	214031	222164
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा हुआ) @	1667.59	134.86	139.51	121.60	2349	193	178	164
4 कार्ड भुगतान	63861.15	5275.26	6056.57	5999.81	2605110	216304	228576	253483
4.1 क्रेडिट कार्ड	47740.76	3921.62	4935.77	4952.41	2109197	176202	191170	216707
4.1.1 पीओएस आधारित \$	24571.10	1978.05	2501.63	2416.15	795022	60857	72753	72544
4.1.2 अन्य \$	23169.66	1943.57	2434.15	2536.26	1314175	115345	118417	144163
4.2 डेबिट कार्ड	16120.39	1353.64	1120.80	1047.40	495914	40102	37406	36776
4.2.1 पीओएस आधारित \$	11980.33	995.05	843.59	777.57	332556	25777	24663	22773
4.2.2 अन्य \$	4140.06	358.59	277.21	269.83	163358	14325	12743	14003
5 प्रीपेड भुगतान उपकरण	70254.08	5476.69	7966.16	8551.51	216751	17489	22253	22637
5.1 वालट	52898.40	4054.95	6246.19	6871.58	154066	11889	17169	17183
5.2 कार्ड	17355.68	1421.74	1719.97	1679.93	62686	5600	5083	5454
5.2.1 पीओएस आधारित \$	8240.14	721.65	669.51	688.72	11512	858	1030	1092
5.2.2 अन्य \$	9115.54	700.09	1050.45	991.22	51174	4743	4054	4362
6 कागज-आधारित उपकरण	6095.38	484.94	446.03	464.86	7113350	543387	540025	570467
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6095.38	484.94	446.03	464.86	7113350	543387	540025	570467
6.2 अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल खुदरा भुगतान (2+3+4+5+6)	2222885.46	179668.57	235213.95	230018.07	91925771	7342641	8108084	8612885
कुल भुगतान (1+2+3+4+5+6)	2225910.01	179901.90	235473.63	230298.90	293313453	25129124	24479300	28449827
कुल डिजिटल भुगतान (1+2+3+4+5)	2219814.63	179416.96	235027.60	229834.04	286200103	24585737	23939275	27879361
भाग II - भुगतान मोड और चैनल								
	मात्रा (लाख)				मूल्य (करोड़)			
	वित्तीय वर्ष 2024-25	सितंबर 2024	2025 अगस्त	2025 सितंबर	वित्तीय वर्ष 2024-25	सितंबर 2024	2025 अगस्त	2025 सितंबर
	1	2	3	4	1	2	3	4
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित)	1756976.91	144028.12	184421.97	181008.61	39206221	3157064	3539156	3618114
1.1 इंस्टा-बैंक \$	110801.96	10596.33	10513.94	10469.49	7207439	617325	605043	633733
1.2 अंतर-बैंक \$	1646174.95	133431.79	173908.03	170539.12	31998782	2539739	2934113	2984381
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग/इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @	47478.09	3911.28	3638.12	3755.37	131858133	11251665	11554723	13794692
2.1 इंस्टा-बैंक @	13056.37	1103.93	798.11	853.80	69086996	5946842	6020479	7091903
2.2 अंतर-बैंक @	34421.72	2807.35	2840.01	2901.57	62771136	5304823	5534243	6702789
बी. एटीएम								
3. एटीएम से नकद निकासी \$	60308.11	4949.81	4625.94	4395.46	3063077	245223	240098	230952
3.1 क्रेडिट कार्ड द्वारा \$	97.25	8.02	6.71	6.69	5084	417	366	369
3.2 डेबिट कार्ड द्वारा \$	59965.70	4922.18	4601.37	4370.89	3046987	243930	238883	229713
3.3 प्री-पेड कार्ड द्वारा \$	245.16	19.62	17.86	17.89	11005	876	849	870
4 पीओएस पर नकद निकासी	3.58	0.27	0.13	0.12	37	3	1	2
4.1 डेबिट कार्ड द्वारा \$	3.33	0.25	0.10	0.10	35	3	1	1
4.2 प्री-पेड कार्ड द्वारा \$	0.25	0.01	0.02	0.02	3	0	0	0
5. माइक्रो एटीएम से नकद निकासी @	11640.55	975.12	1245.48	1034.96	296622	23389	31157	26356
5.1 एडिपीएस@	11640.55	975.12	1245.48	1034.96	296622	23389	31157	26356

भाग III - भुगतान अवसरचना (लाख)				
	मार्च 2025 तक	सितंबर 2024	2025 अगस्त	2025 सितंबर
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसरचना				
1 कार्डों की संख्या	11006.97	10793.85	11303.57	11382.14
1.1 क्रेडिट कार्ड	1098.85	1061.03	1123.14	1133.90
1.2 डेबिट कार्ड	9908.12	9732.82	10180.42	10248.24
2 पीपीआई की संख्या @	13401.46	15339.99	14584.13	16180.40
2.1 वॉलेट @	8678.44	11381.79	9692.18	11478.95
2.2 कार्ड @	4723.02	3958.20	4891.95	4701.45
3 एटीएम और सीआरएम की संख्या	2.56	2.55	2.49	2.49
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम\$ और सीआरएम#	2.20	2.20	2.12	2.12
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.36	0.35	0.36	0.37
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	14.82	14.53	14.71	14.60
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	110.98	93.43	119.73	121.24
6 भारत क्यूआर @	67.18	64.16	65.97	60.95
7 यूपीआई क्यूआर*	6579.30	6070.79	6978.38	7090.66
भाग IV - भुगतान मोड और चैनल (अंतर्राष्ट्रीय)				
	भारत में जारी कार्ड (क्रेडिट, डेबिट और पीपीआई) का उपयोग करके किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का विवरण			
	मात्रा (लाख)		मूल्य (करोड़)	
	2025 अगस्त	2025 सितंबर	2025 अगस्त	2025 सितंबर
1. कार्ड से भुगतान	120.40	136.04	9166	10212
1.1 क्रेडिट कार्ड	77.94	87.55	6917	7821
1.1.1 पीओएस आधारित	29.32	36.09	2009	2547
1.1.2 ऑनलाइन	48.62	51.46	4908	5274
1.2 डेबिट कार्ड	42.47	48.48	2249	2391
1.2.1 पीओएस आधारित	18.33	23.55	654	799
1.2.2 ऑनलाइन	24.14	24.93	1595	1592
2. प्रीपेड भुगतान उपकरण	28.07	35.26	1204	1463
2.1 पीओएस आधारित	23.94	30.33	922	1153
2.2 ऑनलाइन	4.13	4.93	283	309
3. एटीएम से नकद निकासी	4.63	5.32	1184	1299
3.1 क्रेडिट कार्ड द्वारा	0.37	0.42	69	78
3.2 डेबिट कार्ड द्वारा	2.80	3.29	524	631
3.3 पीपीआई द्वारा	1.47	1.61	592	591
कुल अंतर्राष्ट्रीय भुगतान	153.11	176.62	11555	12974
भाग V - घरेलू भुगतान धोखाधड़ी				
	मात्रा (लाख)	मूल्य (करोड़)	प्रत्येक एक्स भुगतान लेनदेन में से एक धोखाधड़ीपूर्ण	एफटीएस (धोखाधड़ी / भुगतान मूल्य * 10000)
सितंबर 2022	1.71	249	58177.41	0.127 bps
अक्टूबर 2022	1.79	220	59533.35	0.127 bps
नवंबर 2022	2.06	257	50620.69	0.143 bps
दिसंबर 2022	1.54	204	72426.75	0.103 bps
जनवरी 2023	1.57	195	71681.44	0.106 bps
फरवरी 2023	2.29	317	47018.00	0.177 bps
मार्च 2023	2.25	333	53907.48	0.142 bps
अप्रैल 2023	1.75	273	68927.36	0.152 bps
मई 2023	2.03	285	63051.71	0.147 bps
जून 2023	1.74	265	72554.96	0.128 bps
जुलाई 2023	2.24	286	59898.87	0.146 bps
अगस्त 2023	2.40	320	58391.71	0.157 bps
सितंबर 2023	2.52	366	55057.76	0.174 bps
अक्टूबर 2023	2.23	335	66950.05	0.164 bps
नवंबर 2023	2.57	428	57618.81	0.209 bps
दिसंबर 2023	2.92	432	53327.09	0.187 bps
जनवरी 2024	2.69	435	56335.82	0.207 bps
फरवरी 2024	2.57	507	61162.60	0.231 bps
मार्च 2024	2.57	471	67394.38	0.177 bps
अप्रैल 2024	2.38	414	70681.81	0.191 bps
मई 2024	2.81	545	62637.44	0.240 bps
जून 2024	2.36	480	73786.50	0.206 bps
जुलाई 2024	2.54	462	71157.30	0.194 bps
अगस्त 2024	2.34	401	79284.04	0.170 bps
सितंबर 2024	2.19	401	84751.16	0.158 bps
अक्टूबर 2024	2.35	411	87719.87	0.159 bps
नवंबर 2024	2.03	345	93298.98	0.155 bps
दिसंबर 2024	2.59	425	78851.58	0.155 bps
जनवरी 2025	2.30	361	90183.15	0.140 bps
फरवरी 2025	1.83	288	107458.55	0.121 bps

मार्च 2025	1.84	291	121303.33	0.094 bps
अप्रैल 2025	1.80	307	119659.70	0.121 bps
मई 2025	1.87	329	120406.36	0.129 bps
जून 2025	1.87	303	118068.41	0.111 bps
जुलाई 2025	2.87	440	81444.84	0.160 bps
अगस्त 2025	2.40	411	100735.94	0.166 bps
सितंबर 2025	3.03	431	77798.50	0.150 bps

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।
2. ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) को 31 जनवरी 2020 से एनएसीएच में विलय कर दिया गया है।
3. कार्ड भुगतान (डेबिट/क्रेडिट कार्ड) और प्रीपेड भुगतान उपकरण (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के बाद के डेटा की तुलना पहले के महीनों/अवधि से नहीं की जाती है, क्योंकि डेटा परिभाषाओं में संशोधन के साथ-साथ अधिक विस्तृत डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया जाता है। नया प्रारूप ई-कॉमर्स लेनदेन को कैप्चर करता है; फास्ट टाग, डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड अंतरण आदि का उपयोग करके लेनदेन। इसके अलावा, विफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, समाप्त कार्ड/वॉलेट को बहिष्कृत किया गया है।
5. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) द्वारा रिपोर्ट किए गए घरेलू भुगतान धोखाधड़ी आंकड़ों पर डेटा, सीपीएफआईआर (केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री) में गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता और गैर-बैंक क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता।
6. डेटा में धोखाधड़ी करने के प्रयास शामिल नहीं हैं।